

# यदि आप बीमार महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए - छात्रों के लिए ट्रांसक्रिप्ट

[उत्साहित संगीत]

[कथन] कोविड-19 से पीड़ित लोग कई तरह से बीमार महसूस कर सकते हैं। यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो अपने माता-पिता या किसी भी बड़े व्यक्ति को इस के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। आपको स्कूल नहीं आना चाहिए।

यदि आप पहले से ही स्कूल में हैं, और आप बीमार महसूस करते हैं, तो तुरंत अपने शिक्षक या स्कूल नर्स को बताएं।

आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं ऐसा कहना ठीक है। और किसी और व्यक्ति को बताना महत्वपूर्ण है ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें।

यदि आपके घर में किसी वयस्क को कोविड-19 के बारे में अधिक प्रश्न हैं, तो [health.mn.gov](http://health.mn.gov) पर जाएं।

[उत्साहित संगीत]

Minnesota Department of Health  
Communications Office  
PO Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-4989  
[health.communications@state.mn.us](mailto:health.communications@state.mn.us)  
[www.health.state.mn.us](http://www.health.state.mn.us)

2/17/21

What You Should Do If You Feel Sick - For Students (Hindi)

इस जानकारी को एक अलग फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए, इस पर कॉल करें: 651-201-4989